



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 29—अक्तूबर 5, 2012 (आश्विन 7, 1934)  
No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 29—OCTOBER 5, 2012 (ASVINA 7, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## विषय-सूची

पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	791	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, हट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	993	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	3	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश..... *
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, हट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1433	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... 1601
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस..... *
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... *
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं..... 7997
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस..... 737
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक..... *

\*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

## CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	791	Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .....	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	993	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .....	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence .....	3	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .....	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence .....	1433	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .....	1601
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations .....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .....	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations .....	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners .....	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills .....	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .....	7997
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .....	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .....	737
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the -Ministries of the Government of India (other than the		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi .....	*

\*Folios not received.

## भाग I — खण्ड 1

## [PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 अगस्त 2012

सं. 89-प्रेज/2012--राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश अग्निशमन सेवा के निम्नलिखित अधिकारी को वीरता के लिए राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:--

श्री वी. नरसिम्हा राव (मरणोपरांत)  
ड्राईवर ऑपरेटर

2. दिनांक 19.05.2012 को 21 : 15 बजे मधीरा अग्निशमन केन्द्र को सूचना मिली कि श्री लक्ष्मी वलभा कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड मधीरा, जिला-खम्माम में आग लग गयी है। सूचना मिलते ही मधीरा अग्निशमन केन्द्र से अग्निशमन बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचा। घटना स्थल पहुंचने पर अग्निशमन बचाव दल ने देखा कि कोल्ड स्टोरेज बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर लाल मिर्च से भरे हुए बैगों में आग लगी हुई है। ड्राईवर ऑपरेटर श्री वी नरसिम्हा राव ने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए फायर टैंडर को लपटों तथा घने धुँएँ के बीच में से निकालते हुए आग बुझाने हेतु कोल्ड स्टोरेज बिल्डिंग के पीछे ले गया। फॉयर फाइटिंग की कार्यवाही के दौरान बिल्डिंग का मलबा गिरने लगा जिसमें वह दब गया।

3. इस प्रकार ड्राईवर ऑपरेटर, स्वर्गीय वी. नरसिम्हा राव ने उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस, व्यवसायिक कुशलता एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

4. यह पुरस्कार वीरता के लिए राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाली नियमावली के नियम 3(i) के तहत प्रदान किए जाते हैं और परिणामतः नियम 5(क) के तहत अनुमेय विशेष भत्ता दिनांक 19.05.2012 से इसके साथ देय होगा।

सुरेश यादव  
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

श्री रंगन मुर्गन  
स्टेशन ऑफिसर

श्री कृष्णासामी अनबालागन  
लीडिंग फायरमैन

2. दिनांक 16.01.2012 को 00 : 50 बजे अग्निशमन केन्द्र के कंट्रोल रूम में सूचना मिली कि पुरातत्व भवन "खालसा महल" जिसमें महानिदेशालय उद्योग, वाणिज्य और सामाजिक कल्याण विभाग के कार्यालय जो कि एजिलागाम काम्पलेक्स में स्थित हैं, में आग लगी है। सूचना मिलते ही तुरंत ट्रिपलिकेन और ऐगमोर अग्नि एवं बचाव दमकल केन्द्र के सदस्य फॉयर टैंडर के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। घटना स्थल पहुंचने पर उन्होंने देशा कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर आग लगी हुई है। मेलापोर, ऐसप्लाण्डे, किलपोक, तेनामपेट और विपेरी से भी बचाव दल सहायता के लिए घटना स्थल पर पहुंच गये। डिविजनल ऑफिसर, श्रीमती प्रिया रविचन्द्रन, स्टेशन ऑफिसर श्री रंगन मुर्गन और लीडिंग फायरमैन श्री कृष्णासामी अनबालागन के साथ अपनी जिंदगी की परवाह किये बगैर जलती हुई बिल्डिंग से निकल रही लपटों से होते हुए बिल्डिंग के दूसरी तरफ पहुंच कर आग को बुझाने की कोशिश करने लगे। आग को बुझाने के दौरान भवन की छत गिरने से सभी सदस्य मलबे में फँस गये जिन्हें गम्भीर जली हुई स्थिति में निकालकर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।

3. इस प्रकार डिविजनल ऑफिसर श्रीमती प्रिया रविचन्द्रन, स्टेशन ऑफिसर श्री रंगन मुर्गन और लीडिंग फायरमैन श्री कृष्णासामी अनबालागन ने उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस, कुशल नेतृत्व, व्यवसायिक कुशलता एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

4. यह पुरस्कार वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाली नियमावली के नियम 3(i) के तहत प्रदान किये जाते हैं और परिणामतः नियम 5(क) के तहत अनुमेय विशेष भत्ता दिनांक 16.01.2012 से इसके साथ देय होगा।

सुरेश यादव  
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 90-प्रेज/2012--राष्ट्रपति, तमिलनाडु अग्निशमन सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:--

श्रीमती प्रिया रविचन्द्रन  
डिवीजनल ऑफिसर

सं. 91-प्रेज/2012--राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस 2012 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी विशिष्ट

सेवा के लिए राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:--

श्री राम नरेश अवस्थी  
लीडिंग फायरमैन  
उत्तर प्रदेश

श्री तपन कुमार घोष  
डिप्टी डायरेक्टर  
पश्चिम बंगाल

श्री अमलेन्दु बैनर्जी  
डिविजनल ऑफिसर  
पश्चिम बंगाल

श्री रूपनाथ सेनगुप्ता  
चीफ मोबलाइजिंग ऑफिसर  
पश्चिम बंगाल

2. यह पुरस्कार विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाले नियमों के नियम 3(ii) के तहत प्रदान किया जाता है।

सुरेश यादव  
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 92-प्रेज/2012--राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस 2012 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी सराहनीय सेवा के लिए अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:--

श्री के. जयराम नायक  
अडिशनल डायरेक्टर  
आन्ध्र प्रदेश

श्री पी. रविन्दर रेड्डी  
रिजिनल फायर ऑफिसर  
आन्ध्र प्रदेश

श्री आर. पोली रेड्डी  
स्टेशन फायर ऑफिसर  
आन्ध्र प्रदेश

श्री वाई.डी. राजु  
लीडिंग फायरमैन  
आन्ध्र प्रदेश

श्री वी सत्यनारायण  
फायरमैन  
आन्ध्र प्रदेश

श्री तरुण चन्द्र दिहिंगिया  
सीनियर स्टेशन ऑफिसर  
असम

श्री शसाधर सहारिया  
सब-ऑफिसर  
असम

श्री श्याम बिहारी राम  
फायर स्टेशन ऑफिसर  
बिहार

श्री सुरेन्द्र सिंह  
लीडिंग फायरमैन  
बिहार

श्री सुरेश सिंह  
सहायक मंडल अधिकारी  
दिल्ली

श्री फ्रान्सिस ब्राउन  
स्टेशन ऑफिसर  
दिल्ली

श्री रामजी लाल  
सब-ऑफिसर  
दिल्ली

श्री राम नवल  
सब-ऑफिसर  
दिल्ली

श्री अशोक कुमार दोचाना  
रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर  
दिल्ली

श्री जगदीश चन्द  
चालक कम पम्प ऑपरेटर  
हिमाचल प्रदेश

श्री बेलागुप्पा नारायण मन्जुनाथ  
रिजिनल फायर ऑफिसर  
कर्नाटक

श्री सन्नामरप्पा केनचप्पा  
डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर  
कर्नाटक

श्री प्रवीन  
असिस्टेंट फायर स्टेशन ऑफिसर  
कर्नाटक

श्री मलप्पा बासवलिंगप्पा  
लीडिंग फायरमैन-171  
कर्नाटक

श्री सजीव मवुन्कल प्रभाकरन  
स्टेशन ऑफिसर  
केरल

श्री जोमी के.एम. मथई  
स्टेशन ऑफिसर  
केरल

श्री विलसन नारायणन नादर  
असिस्टेंट स्टेशन ऑफिसर  
केरल

श्री सुरेश नारायणनकुट्टी  
फायरमैन ड्राइवर कम पम्प ऑपरेटर-1433  
केरल

श्री शिवकुमार के. वासुदेवन  
फायरमैन ड्राइवर कम पम्प ऑपरेटर-1544  
केरल

श्री पोरीमोल खरकॉंगोर  
सब-ऑफिसर  
मेघालय

श्री मेरीमी रियम्बई  
स्टेशन ऑफिसर  
मेघालय

श्री एच. बुन्बुमा  
लीडिंग फायरमैन  
मिजोरम

श्री रालकप्पछुन्गा  
लीडिंग फायरमैन  
मिजोरम

श्री इन्द्र कुमार राय  
फायर स्टेशन ऑफिसर  
सिक्किम

श्री कृष्णराज परथीबन  
डिप्टी डायरेक्टर  
तमिलनाडु

श्री मुरुगप्पा दक्षणामूर्ति  
डिविजनल ऑफिसर  
तमिलनाडु

श्री अलवरचेट्टी नटराजन  
स्टेशन ऑफिसर  
तमिलनाडु

श्री मथालई मुथु सेलवाराज  
लीडिंग फायरमैन-4519  
तमिलनाडु

श्री अम्मासई करुप्पनसामी  
फायरमैन ड्राइवर-4043  
तमिलनाडु

मोहम्मद हुसैन करमाथुल्ला  
फायरमैन-4869  
तमिलनाडु

श्री प्रेम प्रकाश अवस्थी  
चीफ फायर ऑफिसर  
उत्तर प्रदेश

श्री रामायन प्रसाद मिश्रा  
लीडिंग फायरमैन  
उत्तर प्रदेश

श्री ईफ्तीखार अहमद  
लीडिंग फायरमैन  
उत्तर प्रदेश

श्री रविन्द्र सिंह  
फायर सर्विस ड्राइवर  
उत्तर प्रदेश

श्री हरिष गिरी  
फायर स्टेशन ऑफिसर  
उत्तराखंड

श्री कृपाराम शर्मा  
फायरमैन  
उत्तराखंड

श्री चन्दन कुमार डे  
फायर प्रोटेक्शन ऑफिसर  
पश्चिम बंगाल

श्री दीपक कुमार नन्दी  
स्टेशन ऑफिसर  
पश्चिम बंगाल

श्री कनाई लाल घोष  
फायर ईजन ऑपरेटर कम ड्राइवर  
पश्चिम बंगाल

श्री मंजु कुमार रॉय  
फायर ऑपरेटर  
पश्चिम बंगाल

श्री नरेश कुमार  
असिस्टेंट कमाण्डेंट (फायर)  
के.औ.सु.ब. गृह मंत्रालय

श्री श्रीनिवास हरीश  
हैड कांस्टेबल (फायर)  
के.औ.सु.ब. गृह मंत्रालय

श्री ए. नारायणन  
हैड कांस्टेबल (फायर)  
के.औ.सु.ब. गृह मंत्रालय

श्री संजय कुमार  
मुख्य प्रबंधक (अग्निशमन सेवायें)  
तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

श्री सत्यराम  
सहायक मुख्य निरीक्षक (अग्नि)  
तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

2. यह पुरस्कार सराहनीय सेवा के लिए अग्निशमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाले नियमों के नियम 3(ii) के तहत प्रदान किया जाता है।

सुरेश यादव  
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 93-प्रेज/2012--राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2012 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:--

श्री अम्बिका प्रसाद मिश्रा  
कॉन्सटेबल (होगा)  
छत्तीसगढ़

श्री अशोक कुमार वर्मा  
इंस्पेक्टिंग ऑफिसर  
दिल्ली

श्री विजय किशन मल्होत्रा  
एडिशनल चीफ वार्डन (सीडी)  
दिल्ली

श्री रणधीर सिंह  
कम्पनी कमांडर  
हरियाणा

2. यह पुरस्कार विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा पदक पुरस्कार को शासित करने वाले नियमों के नियम 3(ii) के तहत प्रदान किया जाता है।

सुरेश यादव  
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 94-प्रेज/2012--राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2012 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी सराहनीय सेवा के

लिए गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:--

श्री दीपक कुमार तिवारी  
कमांडेण्ट (सीटीआई)  
छत्तीसगढ़

श्री सुरेश कुमार ठाकुर  
डिवीजिनल कमांडेण्ट (होगा)  
छत्तीसगढ़

श्री लोचन प्रसाद मिश्रा  
नायक (होगा)  
छत्तीसगढ़

श्री रवि कुमार ठाकुर  
लांस नायक (होगा)  
छत्तीसगढ़

श्री शंकर लाल साहू  
लांस नायक (होगा)  
छत्तीसगढ़

श्री कमल किशोर जोशी  
इंस्ट्रक्टर, सिविल डिफेंस  
दिल्ली

श्री मोहम्मद फारूक  
इंस्ट्रक्टर, सिविल डिफेंस  
दिल्ली

श्री अमर नाथ गुप्ता  
जूनियर इंस्ट्रक्टर (हवलदार)  
दिल्ली

श्री बीर सिंह  
इंस्ट्रक्टर, सिविल डिफेंस  
दिल्ली

सुश्री तृष्णा चट्टोपाध्याय  
इंस्ट्रक्टर, सिविल डिफेंस  
दिल्ली

श्री अशोक कुमार जैन  
डिप्टी डिवीजिनल वार्डन  
दिल्ली

श्री सुरिन्दर सिंह  
डिवीजिनल वार्डन  
दिल्ली

श्री सतविन्दर पुरी

डिवीजिनल वार्डन

दिल्ली

श्री जोगिन्दर सिंह

डिप्टी डिवीजिनल वार्डन

दिल्ली

श्री राजेश कुमार

प्लाटून कमांडर

हरियाणा

श्री अशोक कुमार

आनरेरी प्लाटून कमांडर

हिमाचल प्रदेश

श्री राम प्रकाश

आनरेरी सेक्शन लीडर

हिमाचल प्रदेश

श्री नितेन्दर कुमार शर्मा

प्लाटून कमांडर

हिमाचल प्रदेश

श्री कामेश्वर दत्त शर्मा

प्लाटून कमांडर

हिमाचल प्रदेश

श्री धीरज शर्मा

प्लाटून कमांडर

हिमाचल प्रदेश

श्री नन्जैया नागेश

कम्पनी कमांडर

कर्नाटक

श्री करडप्पा रामन्ना

सीनियर प्लाटून कमांडर

कर्नाटक

श्री धानाजी बन्दू काम्बले

सीनियर प्लाटून कमांडर

कर्नाटक

श्री मल्लप्पा हेगप्पा हेगनावार

प्लाटून कमांडर

कर्नाटक

श्री मोहम्मदसाब दावलसाब धालायत

प्लाटून कमांडर

कर्नाटक

श्री रमेश शंकर राव अम्बुरे

प्लाटून कमांडर

कर्नाटक

श्री वेंकटेश कावासरी वैद्यनाथ

डिवीजिनल वार्डन (सीडी)

कर्नाटक

श्री प्रदिश मान्डा सांगमा

प्रशासनिक सूबेदार (डीटीसी)

मेघालय

श्रीमती मैनोरा माण्डा सांगमा

असिस्टेंट डिप्टी कंट्रोलर (सीडी)

मेघालय

श्री जोसेफ खिरियम

सूबेदार (बोविंहोगा)

मेघालय

श्री अजय कुमार सामल

आनरेरी प्लाटून कमांडर

ओडिशा

श्री वी. रामानाथन

प्लाटून कमांडर

तमिलनाडु

श्रीमती जयन्ती रविचन्द्रन

डिप्टी ऐरिया कमांडर

तमिलनाडु

श्री अनिल कुमार गर्ग

डिवीजिनल वार्डन (सीडी)

उत्तर प्रदेश

श्री आजाद हफीज

डिवीजिनल वार्डन (सीडी)

उत्तर प्रदेश

श्री अनिल अग्रवाल

डिप्टी चीफ वार्डन (सीडी)

उत्तर प्रदेश

श्री राधा कृष्ण शर्मा

आनरेरी कम्पनी कमांडर

उत्तर प्रदेश

श्री जी. कामेसम

सिविल डिफेन्स इंस्ट्रक्टर

रेलवे

2. यह पुरस्कार सराहनीय सेवा के लिए गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा पदक पुरस्कार को शासित करने वाले नियमों के नियम 3(ii) के तहत प्रदान किया जाता है।

सुरेश यादव  
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 95-प्रेज/2012--राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2012 के अवसर पर निम्नलिखित जेल कार्मिकों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:--

श्री सीतांशु कुमार देब  
जेलर  
बारीपदा सर्किल जेल  
ओडिशा

श्री ओंकार नाथ मिश्रा  
वार्डर  
जिला जेल, रायबरेली  
उत्तर प्रदेश

श्रीमती जानकी देवी  
महिला हेड वार्डर  
जिला जेल, मुरादाबाद  
उत्तर प्रदेश

2. यह पुरस्कार विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान किए जाने को शासित करने संबंधी नियमों के नियम 4 के अंतर्गत प्रदान किया जाता है।

सुरेश यादव  
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 96-प्रेज/2012--राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2012 के अवसर पर निम्नलिखित जेल कार्मिकों को सराहनीय सेवा के लिए सुधारात्मक सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:--

श्री एम. प्रभाकर राव  
हेड वार्डर  
उप-जेल, कवाली  
आन्ध्र प्रदेश

श्री बी. अरमुगम  
हेड वार्डर  
नई उप-जेल  
चित्तूर उप-जेल में ओ.डी. पर कार्यरत  
ग्रेड-II, चित्तूर, आन्ध्र प्रदेश

श्रीमती सूर्यापुदी श्यामालम्बा  
हेड वार्डर  
विशेष महिला जेल, राजमुंदरी  
आन्ध्र प्रदेश

श्री बीरचन्द्र प्रसाद सिंह  
निदेशक  
जेल उद्योग  
गृह (जेल) विभाग  
बिहार

श्री विष्णु राम बिसन  
वार्डर  
केन्द्रीय जेल, जगदलपुर  
छत्तीसगढ़

श्री हंसराज सिंह  
सहायक अधीक्षक  
तिहाड़ जेल  
दिल्ली

श्री मोहम्मद असलम  
वार्डर-655  
केन्द्रीय जेल सं. 7  
तिहाड़ जेल  
दिल्ली

श्री ओंकार चन्द  
हेड वार्डर  
उप-जेल, हीरानगर  
जम्मू एवं कश्मीर

डॉ. पी विजयन  
विधि व्याख्याता  
एस आई सी ए, तिरुवनंतपुरम  
केरल

श्री उदय सिंह राजपूत  
हेड वार्डर  
जिला जेल, अलीराजपुर  
मध्य प्रदेश

श्री रामबाबू भार्गव  
वार्डर  
केन्द्रीय जेल, ग्वालियर  
मध्य प्रदेश

श्री सोखोलाल ताउथांग  
जेलर  
मणिपुर केन्द्रीय जेल, इम्फाल  
मणिपुर



श्री एस. रामेश्वर सिंह  
वार्डर  
मणिपुर केन्द्रीय जेल, इम्फाल  
मणिपुर

श्री न्यूलैंड थाबाह  
हेड वार्डर  
जिला जेल, तूरा  
मेघालय

श्री राज किशोर सिंह  
वार्डर  
जिला जेल, जोवई  
मेघालय

श्री कुवेजु थिराह  
ए आई जी  
कारागार केन्द्रीय जेल, दीमापुर  
नागालैंड

श्री केडी अंगामी  
अधीक्षक  
जिला जेल, कोहिमा  
नागालैंड

श्री तपन कुमार मोहंती  
वार्डर  
बारीपदा सर्किल जेल  
ओडिशा

श्री के. वनाथन  
ग्रेड-I वार्डर  
विशेष उप-जेल त्रिची  
तमिलनाडु

श्री एस. विक्टर  
सहायक जेलर  
उप-जेल, तिरुपुर  
तमिलनाडु

श्री के. लोगानाथन  
ग्रेड-I वार्डर (यू.जी.)  
उप-जेल, नमक्कल  
तमिलनाडु

श्री रीबान सिंह  
अधीक्षक  
जिला जेल, आगरा  
उत्तर प्रदेश

श्री जगदीश प्रसाद  
उप जेलर  
जिला जेल, बिजनौर  
उत्तर प्रदेश

श्री मिजाजी लाल  
उप जेलर  
जिला जेल, बुलन्दशहर  
उत्तर प्रदेश

श्री शैलेन्द्र कुमार त्रिपाठी  
वार्डर  
जिला जेल, हरदोई  
उत्तर प्रदेश

2. यह पुरस्कार सराहनीय सेवा के लिए सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान किए जाने को शासित करने संबंधी नियमों के नियम 4(iii) के अंतर्गत प्रदान किया जाता है।

सुरेश यादव  
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

दिनांक 10 सितम्बर 2012

सं. 97-प्रेज/2012--भारत के राजपत्र के भाग-I, खंड-1 में दिनांक 8 नवम्बर, 2008 को प्रकाशित इस सचिवालय के असाधारण साहसपूर्ण कार्यों के लिए 'सेना मेडल/आर्मी मेडल' पुरस्कार से संबंधित दिनांक 15 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या 100-प्रेज/2008 के क्रम संख्या 28 में अंकित कैप्टन लाग्जाम जिमकेल्ली मिताई, आईसी-65540, महार रेजिमेंट/7 असम राईफल का नाम पुरस्कार के लिस्ट से हटाया जाता है।

सुरेश यादव  
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

शुद्धिपत्र

सं. 98-प्रेज/2012--असाधारण साहसपूर्ण कार्यों हेतु 'सेना मेडल/आर्मी मेडल का-बार' के पुरस्कार के संबंध में इस सचिवालय की अधिसूचना सं. 99-प्रेज/2008 दिनांक 15 अगस्त, 2008, तदन्तर राजपत्र अधिसूचना सं. 103-प्रेज/2010 दिनांक 5 जुलाई, 2010 के तहत संशोधित दिनांक 24 जुलाई, 2010 को भारत के राजपत्र के भाग-I, खंड-1 में प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं :--

राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को उनके असाधारण साहसपूर्ण कार्यों के लिए 'सेना मेडल/आर्मी मेडल का बार' पुरस्कार प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं :--

1. मेजर सुखदेव सिंह नागियाल (आईसी-60492) सेना मेडल, सेना वायु रक्षा/34 असम राईफल

2. कैप्टन कुलदीप सिंह (आईसी-63517), सेना मेडल, डोगरा रेजिमेंट/62 राष्ट्रीय राईफल

के स्थान पर

राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को उनके असाधारण साहसपूर्ण कार्यों के लिए 'सेना मेडल/आर्मी मेडल का बार' पुरस्कार प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं :--

1. मेजर सुखदेव सिंह नागियाल (आईसी-60492) सेना मेडल, सेना वायु रक्षा/34 असम राईफल
2. कैप्टन कुलदीप सिंह (आईसी-63517), सेना मेडल, डोगरा रेजिमेंट/62 राष्ट्रीय राईफल
3. कैप्टन लांगजाम जिमकेल्ली मितैई (आईसी-65540), सेना मेडल, महार रेजिमेंट/7 असम राईफल

पढ़ा जाए।

सुरेश यादव  
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 99-प्रेज/2012--भारत के राजपत्र के भाग-I, खंड-1 में दिनांक 13 जून, 1998 को प्रकाशित इस सचिवालय की वीरता के लिए पुलिस पदक से संबंधित दिनांक 31 मई, 1998 की अधिसूचना सं. 77-प्रेज/98 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

“श्री एल. एस. नाथ” के स्थान पर

“श्री लोटके सोमनाथ जर्नाधन” पढ़ा जाए।

सुरेश यादव  
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 100-प्रेज/2012--भारत के राजपत्र के भाग-I, खंड-1 में दिनांक 11 जून, 2011 को प्रकाशित इस सचिवालय की वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/वीरता के लिए पुलिस पदक से संबंधित दिनांक 24 मई, 2011 की अधिसूचना सं. 96-प्रेज/2011 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

“शंकर कुमार” के स्थान पर

“शंकर कुमार” पढ़ा जाए।

सुरेश यादव  
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

मानव संसाधन विकास मंत्रालय  
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 सितम्बर 2012

संकल्प

सं. एफ. 4-11/2012-यू.-3--भारतीय दर्शनशास्त्र अनुसंधान परिषद् (आईसीपीआर), नई दिल्ली, के नियमों और विनियमों के नियम 10 में निहित उपबंधों के अनुसार प्रोफेसर मृणाल मिश्र, पूर्व कुलपति, पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय और पूर्व अध्यक्ष, आईसीपीआर को भारतीय दर्शन-शास्त्र अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली में, दिनांक 18.09.2012 को, वर्तमान अध्यक्ष की सेवा अवधि समाप्त होने के पश्चात्, पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्षों के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सदस्य सचिव, भारतीय दर्शनशास्त्र अनुसंधान परिषद्, 36-तुगलकाबाद, इंस्टीट्यूशनल एरिया, एम. बी. रोड, नई दिल्ली-110062 को भेजी जाए।

के. दमयन्ति  
निदेशक

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 सितम्बर 2012

संकल्प

सं. 2-2/2012-जेडसीसी-भारत सरकार--सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत स्वायत्त संगठन, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र (जेडसीसी) के नियमों व विनियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा अनुसूची में दिए अनुसार निदेशक, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र के पद हेतु भर्ती नियम बनाती है।

2. इन नियमों को “निदेशक, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र के पद हेतु भर्ती नियम” कहा जाएगा।

3. ये नियम तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

4. यह आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना को आम सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

5. यह भी आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों और सभी राज्य सरकारों व संघ राज्य क्षेत्रों को प्रेषित की जाए।

यश वीर सिंह  
अवर सचिव

## अनुसूची

निदेशक, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र के पद हेतु भर्ती नियमावली

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-बैंड और ग्रेड वेतन	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
निदेशक	*7 (सात) *	समूह 'क' (अननुसचिवीय) अराजपत्रित	रु. 37,400--67,000/- + ग्रेड वेतन 8,700/- रु.	लागू नहीं	लागू नहीं

\*जेडसीसी की संख्या के आधार पर परिवर्तन के अन्वयधिन।

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	आवेदन हेतु अत्यधिक आयु-सीमा	परिवीक्षा की अवधि	भर्ती की पद्धति	प्रतिनियुक्ति तथा अल्पकालीन संविदा हेतु मानदंड
7	8	9	10	11

लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति : 55 वर्ष से अधिक नहीं। अल्पकालीन संविदा : 65 वर्ष से अधिक नहीं।	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति/ अल्पकालीन संविदा	प्रतिनियुक्ति : भारत सरकार में उप सचिव/निदेशक के पद पर कार्यरत अधिकारी तथा जिन्हें कला और संस्कृति से संबंधित संगठनों में कार्य का अनुभव हो: i. 37,400--67,000/- रु. के वेतन + ग्रेड वेतन 8,700/- रु. में नियमित आधार पर पदधारी, अथवा ii. 15,600--39,100/- रु. के वेतन + ग्रेड वेतन 7,600/- रु. में 3 वर्ष की सेवा पूरी की हो।  अल्पकालीन संविदा पर : i. कला और संस्कृति के क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष की स्थायी सेवा एवं अनुभव वाली प्रख्यात सांस्कृतिक विभूतियां (पेशेवर कलाकार, विद्वान अथवा विशेषज्ञ); ii. स्नातक उपाधि धारक; और iii. संचालित सांस्कृतिक संस्थान (नों) में न्यूनतम 3 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव।
-----------	--	-----------	------------------------------------	--

खोज-सह-चयन समिति	नियुक्त करने वाला प्राधिकारी	टिप्पणी
12	13	14
(क) जेडसीसी का अध्यक्ष-समिति का अध्यक्ष	निदेशक, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से	i. खोज-सह-चयन समिति प्राप्त आवेदनों पर विचार करेगी और तीन पात्र उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार करेगी तथा इससे संबंधित निदेशक की सेवा अवधि की समाप्ति के न्यूनतम 2 महीने पहले संस्कृति मंत्रालय को भेजेगी।
(ख) संयुक्त सचिव (जेडसीसी), भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय-सदस्य	संबंधित जेडसीसी के कार्यकारी बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा।	ii. खोज-सह-चयन समिति द्वारा संस्तुत पैनल को, उसमें से एक नाम के अनुमोदन के लिए संस्कृति मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मंत्री के निर्णय से, शासी निकाय के विचारार्थ जेडसीसी के अध्यक्ष को अवगत कराया जाएगा।
(ग) भारत सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले कला और संस्कृति के क्षेत्र में दो विशेषज्ञ/प्रख्यात व्यक्ति-सदस्य		iii. सांस्कृतिक विभूति के चयन के मामले में, निदेशक, जेडसीसी के रूप में उनका/उनकी नियुक्ति, किसी भी पक्ष से तीन माह पूर्व की नोटिस के बाद समाप्त की जा सकती है। प्रतिनियुक्ति पर निदेशक के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशा-निर्देश लागू होंगे।
(घ) क्रमवर्ती आधार पर दो सदस्य राज्यों के संस्कृति सचिव-सदस्य (यह सदस्यता प्रत्येक रिक्ति और वर्णानुक्रम से सदस्य राज्यों में बारी-बारी से लागू होगी)।		iv. अल्पकालीन संविदा पर नियुक्त निदेशक, भारत सरकार में निदेशकों को देय वेतन और भत्ते का हकदार होगा, जैसा कि प्रत्येक मामले में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित होगा। v. निदेशक की सेवा अवधि (प्रतिनियुक्ति और अल्पकालीन संविदा दोनों पर) 3 वर्ष की होगी। अध्यक्ष, जेडसीसी के परामर्श से केन्द्र सरकार, कार्य निष्पादन के आधार पर उनकी सेवा अवधि 2 वर्ष तक बढ़ा सकती है। सेवा विस्तार के लिए, पिछले 3 वर्षों का एसीआर और अध्यक्ष जेडसीसी द्वारा विधिवत् संस्तुत इस सेवा अवधि के दौरान उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के आधार पर उनके कार्य निष्पादन का निर्धारण किया जाएगा। vi. चयन प्रक्रिया, इच्छुक उम्मीदवारों को सीधे संबंधित जेडसीसी के अध्यक्ष के कार्यालय में आवेदन के लिए सलाह देने के लिए एक विज्ञापन जारी करके संस्कृति मंत्रालय द्वारा वर्तमान निदेशक की सेवा अवधि समाप्त होने के दस माह पहले शुरू की जाएगी।

## PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 15th August 2012

No. 89-Pres/2012—The President is pleased to award the President's Fire Service Medal for Gallantry to the undermentioned Officer of Andhra Pradesh Fire Service :—

Shri V. Narasimha Rao (Posthumous)  
Driver Operator

2. On 19.05.2012 at 21.15 hours a fire call was received at Madhira Fire Station informing that a fire has broken out at Sri Lakshmi Valabha Cold Storage Private Ltd., Madhira, Khammam District. On receipt of call fire tender from Madhira fire station rushed to the spot. On reaching the spot, fire service staff noticed that the top floor of the cold storage, with red chilly bags stored in it, is under fire. Without caring the risk to his life Driver Operator Sh. V. Narasimha Rao had taken the fire engine to the rear site of the cold storage in spite of huge flames and dense smoke allowing fire crew to fight the fire. During the fire fighting operation debris started falling from the upper floor of the building and he buried under the debris.

3. Driver Operator Shri V. Narasimha Rao thus displayed conspicuous gallantry, exemplary courage, professional expertise and devotion to duty of a very high order.

4. These awards are made for gallantry under Rule 3(i) of the rules governing the award of President's Fire Service Medal for Gallantry and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5(a) w.e.f. 19.05.2012.

SURESH YADAV  
OSD to the President

No. 90-Pres/2012—The President is pleased to award the Fire Service Medal for Gallantry to the undermentioned Officers of Tamil Nadu Fire & Rescue Services :—

Smt. Priya Ravichandran  
Divisional Officer

Shri Rangan Murugan  
Station Officer

Shri Krishnasamy Anbalagan  
Leading Fireman

2. On 16.01.2012 at 00.50 hours a call was received at fire control room informing about the fire incident at "Khalsa Mahal" a heritage building comprising of Directorate of Industries and Commerce and Social Welfare Department located at Ezhilagam Complex. Immediately, the fire units of Triplicane and Egmore Fire & Rescue Service station along with its crew rushed to the spot. On reaching spot they found that the ground floor and first floor of the premises is on fire. Reinforcement from Mylapore, Esplanade, Kilpauk, Teynampet and Vepery also each the spot. Divisional Officer, Smt. Priya Ravichandran along with Station Officer, Shri Rangan Murugan and Leading Fireman, Shri Krishnasamy Anbalagan entered into the burning premises on one side without caring

to risk to their own lives to cut off the flame. During the fire fighting operation the roof of the building collapsed and they trapped in the debris consisting of burning ceiling material and wooden beams and sustained severe burn injuries and admitted in hospital for further treatment.

3. Divisional Officer, Smt. Priya Ravichandran, Station Officer, Shri Rangan Murugan and Leading Fireman, Shri Krishnasamy Anbalagan thus displayed conspicuous gallantry, leadership, exemplary courage, professional expertise and devotion to duty of a very high order.

4. These awards are made for gallantry under Rule 3(i) of the Rules governing the award of Fire Service Medal for Gallantry and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5(a) w.e.f. 16.01.2012.

SURESH YADAV  
OSD to the President

No. 91-Pres/2012—The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2012 to award the President's Fire Service Medal for Distinguished Service to the undermentioned officers :—

Shri Ram Naresh Awasthi  
Leading Fireman  
Uttar Pradesh

Shri Tapan Kumar Ghosh  
Deputy Director  
West Bengal

Shri Amalendu Banerjee  
Divisional Officer  
West Bengal

Shri Rupnath Sengupta  
Chief Mobilizing Officer  
West Bengal

2. These awards are made under Rule 3(ii) of the rules governing the award of President's Fire Service Medal for Distinguished Service.

SURESH YADAV  
OSD to the President

No. 92-Pres/2012—The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2012 to award the Fire Service Medal for Meritorious Service to the undermentioned officers :—

Shri K. Jayaram Naik  
Additional Director  
Andhra Pradesh

Shri P. Ravinder Reddy  
Regional Fire Officer  
Andhra Pradesh

Shri R. Poli Reddy  
Station Fire Officer  
Andhra Pradesh

Shri Y. D. Raju  
Leading Fireman  
Andhra Pradesh

Shri V. Satyanarayana Fireman Andhra Pradesh	Shri Wilson Narayanan Nadar Assistant Station Officer Kerala
Shri Tarun Chandra Dehingia Senior Station Officer Assam	Shri Suresh Narayanankutty Fireman Driver Cum Pump Operator No.-1433 Kerala
Shri Sashadhar Saharia Sub Officer Assam	Shri Sivakumar K. Vasudevan Fireman Driver Cum Pump Operator No.-1544 Kerala
Shri Shyam Bihari Ram Fire Station Officer Bihar	Shri Porimol Kharkongor Sub Officer Meghalaya
Shri Surendra Singh Leading Fireman Bihar	Shri Merimee Rymbai Station Officer Meghalaya
Shri Suresh Singh Assistant Divisional Officer Delhi	Shri H. Buankhuma Leading Fireman Mizoram
Shri Francis Brown Station Officer Delhi	Shri Ralkapchhunga Leading fireman Mizoram
Shri Ramji Lal Sub Officer Delhi	Shri Indra Kumar Rai Fire Station Officer Sikkim
Shri Ram Nawal Sub Officer Delhi	Shri Krishnaraj Parthiban Deputy Director Tamil Nadu
Shri Ashok Kumar Dochana Radio Telephone Operator Delhi	Shri Murugappa Dakshnamoorthy Divisional Officer Tamil Nadu
Shri Jagdish Chand Driver Cum Pump Operator Himachal Pradesh	Shri Alwarchetty Natarajan Station Officer Tamil Nadu
Shri Belaguppa Narayan Manjunath Regional Fire Officer Karnataka	Shri Mathalai Muthu Selvaraj Leading Fireman-4519 Tamil Nadu
Shri Sannamarappa Kenchappa District Fire Officer Karnataka	Shri Ammasai Karuppanasamy Fireman Driver-4043 Tamil Nadu
Shri Praveen Assistant Fire Station Officer Karnataka	Mohamed Hussain Karamathulla Fireman-4869 Tamil Nadu
Shri Mallappa Basavalingappa Leading Fireman-171 Karnataka	Shri Prem Prakash Awasthi Chief Fire Officer Uttar Pradesh
Shri Sajeev Mavunkal Prabhakaran Station Officer Kerala	Shri Ramayan Prasad Mishra Leading Fireman Uttar Pradesh
Shri Jomy K.M. Mathai Station Officer Kerala	Shri Iftikhar Ahmad Leading Fireman Uttar Pradesh

Shri Ravindra Singh  
Fire Service Driver  
Uttar Pradesh

Shri Harish Giri  
Fire Station Officer  
Uttarakhand

Shri Kraparam Sharma  
Fireman  
Uttarakhand

Shri Chandan Kumar Dey  
Fire Protection Officer  
West Bengal

Shri Dipak Kumar Nandy  
Station Officer  
West Bengal

Shri Kanai Lal Ghosh  
Fire Engine Operator Cum Driver  
West Bengal

Shri Manju Kumar Roy  
Fire Operator  
West Bengal

Shri Naresh Kumar  
Assistant Commandant (Fire)  
C.I.S.F. Ministry of Home Affairs

Shri Srinivasa Harisha  
Head Constable (Fire)  
C.I.S.F., Ministry of Home Affairs

Shri A. Narayanan  
Head Constable (Fire)  
C.I.S.F. Ministry of Home Affairs

Shri Sanjay Kumar  
Chief Manager (Fire Services)  
M/o Petroleum & Natural Gas

Shri Satya Ram  
Assistant Chief Inspector (fire)  
M/o Petroleum & Natural Gas

2. These awards are made under Rule 3(ii) of the rules governing the award of Fire Service Medal for Meritorious Service.

SURESH YADAV  
OSD to the President

No. 93-Pres./2012—The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2012 to award the President's Home Guards & Civil Defence Medal for Distinguished Service to the under mentioned officers :—

Shri Ambika Prasad Mishra  
Constable (HG)  
Chhattisgarh

Shri Ashok Kumar Verma  
Inspecting Officer  
Delhi

Shri Vijai Kishan Malhotra  
Addl. Chief Warden (CD)  
Delhi

Shri Randhir Singh  
Company Commander  
Haryana

2. These awards are made under Rule 3(ii) of the rules governing the award of President's Home Guards & Civil Defence Medal for Distinguished Service.

SURESH YADAV  
OSD to the President

No. 94-Pres./2012—The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2012 to award the Home Guards & Civil Defence Medal for Meritorious Service to the under mentioned officers :—

Shri Deepak Kumar Tiwari  
Commandant (CTI)  
Chhattisgarh

Shri Suresh Kumar Thakur  
Divisional Commandant (HG)  
Chhattisgarh

Shri Lochan Prasad Mishra  
Naik (HG)  
Chhattisgarh

Shri Ravi Kumar Thakur  
Lance Naik (HG)  
Chhattisgarh

Shri Shankar Lal Sahu  
Lance Naik (HG)  
Chhattisgarh

Shri Kamal Kishore Joshi  
Instructor Civil Defence  
Delhi

Shri Mohammad Farooq  
Instructor Civil Defence  
Delhi

Shri Amar Nath Gupta  
Junior Instructor (HAV)  
Delhi

Shri Bir Singh  
Instructor, Civil Defence  
Delhi

Ms. Trishna Chattopadhyay  
Instructor, Civil Defence  
Delhi

Shri Ashok Kumar Jain  
Dy. Divisional Warden  
Delhi

Shri Surinder Singh  
Divisional Warden  
Delhi

Shri Satvinder Puri  
Divisional Warden  
Delhi

Shri Joginder Singh  
Dy. Divisional Warden  
Delhi

Shri Rajesh Kumar  
Platoon Commander  
Haryana

Shri Ashok Kumar  
Hony. Platoon Commander  
Himachal Pradesh

Shri Ram Prakash  
Hony. Section Leader  
Himachal Pradesh

Shri Nitender Kumar Sharma  
Platoon Commander  
Himachal Pradesh

Shri Kameshwer Dutt Sharma  
Platoon Commander  
Himachal Pradesh

Shri Dhiraj Sharma  
Platoon Commander  
Himachal Pradesh

Shri Nanjaiah Nagesh  
Company Commander  
Karnataka

Shri Karadappa Ramanna  
Sr. Platoon Commander  
Karnataka

Shri Dhanaji Bandu Kamble  
Sr. Platoon Commander  
Karnataka

Shri Mallappa Heggappa Heggannawar  
Platoon Commander  
Karnataka

Shri Mohammedsab Dawalasab Dhalayat  
Platoon Commander  
Karnataka

Shri Ramesh Shankar Rao Ambure  
Platoon Commander  
Karnataka

Shri Venkatesh Kavassery Vaidyanatha  
Divisional Warden (CD)  
Karnataka

Shri Predish Manda Sangma  
Admn. Subedar (DTC)  
Meghalaya

Smt. Mainora Manda Sangma  
Asst. Dy. Controller (CD)  
Meghalaya

Shri Joseph Khyriem  
Subedar (BWHG)  
Meghalaya

Shri Ajaya Kumar Samal  
Hony. Platoon Commander  
Odisha

Shri V. Ramanathan  
Platoon Commander  
Tamil Nadu

Smt. Jeyanthi Ravichandran  
Dy. Area Commander  
Tamil Nadu

Shri Anil Kumar Garg  
Divisional Warden (CD)  
Uttar Pradesh

Shri Azad Hafeez  
Divisional Warden (CD)  
Uttar Pradesh

Shri Anil Agarwal  
Dy. Chief Warden (CD)  
Uttar Pradesh

Shri Radha Krishna Sharma  
Hony. Company Commander  
Uttar Pradesh

Shri G. Kamesam  
Civil Defence Instructor  
Railways

2. These awards are made under Rule 3(ii) of the rules governing the award of Home Guards & Civil Defence Medal for Meritorious Service.

SURESH YADAV  
OSD to the President

No. 95-Pres./2012—The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2012 to award the President's Correctional Service Medal for Distinguished Service to the following prison personnel :—

Shri Sitanshu Kumar Deb  
Jailor  
Baripada Circle Jail  
Odisha

Shri Onkar Nath Mishra  
Warder  
District Jail, Rae Bareilly  
Uttar Pradesh

Smt. Janki Devi  
Women Head Warder  
District Jail, Moradabad  
Uttar Pradesh



2. These awards are made under Rule 4 of the Rules governing the grant of President's Correctional Service Medal for Distinguished Service.

SURESH YADAV  
OSD to the President

No. 96-Pres./2012—The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2012 to award the Correctional Service Medal for Meritorious Service to the following prison personnel :—

Shri M. Prabhakar Rao  
Head Warder  
Sub-Jail, Kavali  
Andhra Pradesh

Shri B. Armugum  
Head Warder  
New Sub-Jail, Chittoor  
Working on O.D. at Sub Jail  
Grade-II, Chittoor  
Andhra Pradesh

Smt. Soornapudi Syamalamba  
Head Warder  
Special Prison for Women, Rajahmundry  
Andhra Pradesh

Shri Birchandra Prasad Singh  
Director  
Jail Industries  
Home (Jail) Department  
Bihar

Shri Vishnu Ram Bisen  
Warder  
Central Jail, Jagdalpur  
Chhattisgarh

Shri Hansraj Singh  
Asstt. Supdt.  
Tihar Jail  
Delhi

Mohd. Aslam  
Warder-655  
Central Jail No. 7, Tihar Jail  
Delhi

Shri Omkar Chand  
Head Warder  
Sub-Jail, Hiranagar  
Jammu & Kashmir

Dr. P. Vijayan  
Law Lecturer  
SICA, Thiruvananthapuram  
Kerala

Shri Uday Singh Rajput  
Head Warder  
District Jail, Alirajpur  
Madhya Pradesh

Shri Rambabu Bhargav  
Warder  
Central Jail, Gwalior  
Madhya Pradesh  
Shri Sokholal Touthang  
Jailor  
Manipur Central Jail, Imphal  
Manipur  
Shri S. Rameshwor Singh  
Warder  
Manipur Central Jail, Imphal  
Manipur  
Shri Newland Thabah  
Head Warder  
District Jail, Tura  
Meghalaya  
Shri Raj Kishore Singh  
Warder  
District Jail, Jowai  
Meghalaya  
Shri Kuvezu Thirah  
AIG  
Prison Central Jail, Dimapur  
Nagaland  
Shri Kedi Angami  
Supdt.  
District Jail, Kohima  
Nagaland  
Shri Tapan Kumar Mohanty  
Warder  
Baripada Circle Jail  
Odisha  
Shri K. Vanathan  
Grade-I Warder  
Special Sub Jail, Trichy  
Tamil Nadu  
Shri S. Victor  
Assistant Jailor  
Sub-Jail, Tirupur  
Tamil Nadu  
Shri K. Loganathan  
Grade-I Warder (U.G.)  
Sub Jail, Namakkal  
Tamil Nadu  
Shri Reeban Singh  
Supdt.  
District Jail, Agra  
Uttar Pradesh  
Shri Jagdish Prasad  
Dy. Jailor  
District Jail, Bijnore  
Uttar Pradesh  
Shri Mijaji Lal  
Dy. Jailor  
District Jail, Bulandshahar  
Uttar Pradesh

Shri Shailendra Kumar Tripathy  
Warder  
District Jail, Hardoi  
Uttar Pradesh

2. These awards are made under Rule 4(iii) of the Rules governing the grant of Correctional Service Medals for Meritorious Service.

SURESH YADAV  
OSD to the President

The 10th September 2012

#### CORRIGENDA

No. 97-Pres./2012—The name of (IC-65540) Capt Longiam Jimkelly Meetei, Mahar Regiment/7 Assam Rifles figuring at Sl. No. 28 stands deleted from the list of personnel awarded 'Sena Medal/Army Medal' for acts of exceptional courage published vide this Secretariat Notification No. 100-Pres/2008 dated 15th August, 2008 published in Part-I Section-1 of the Gazette of India dated 8 November, 2008.

SURESH YADAV  
OSD to the President

No. 98-Pres./2012—The following amendment is made in this Secretariat Notification No. 99-Pres./2008 dated 15th August, 2008 subsequently amended vide Gazette Notification No. 103-Pres./2010 dated 5th July, 2010 published in Part I Section 1 of the Gazette of India dated 24th July, 2010 relating to the award of "Bar to Sena Medal/Army Medal" for acts of exceptional courage :—

For :—

1. Major Sukhdev Singh Nagiyal (IC-60492), Sena Medal, Army Air Defence/34 Assam Rifles
2. Captain Kuldeep Singh (IC-63517), Sena Medal, Dogra Regiment/62 Rashtriya Rifles

Read :—

The President is pleased to approve the award of the "Bar to Sena Medal/Army Medal" to the undermentioned personnel for their acts of exceptional courage :—

1. Major Sukhdev Singh Nagiyal (IC-60492), Sena Medal, Army Air Defence/34 Assam Rifles
2. Captain Kuldeep Singh (IC-63517), Sena Medal, Dogra Regiment/62 Rashtriya Rifles
3. Captain Longiam Jimkelly Meetei (IC-65540), Sena Medal, Mahar Regiment/7 Assam Rifles

SURESH YADAV  
OSD to the President

No. 99-Pres./2012—The following amendment is made in this Secretariat Notification No. 77-Pres/98 dated 31st May, 1998 published in Part I Section 1 of the Gazette of India dated the 13th June, 1998 relating to the award of Police Medal for Gallantry :—

For :— Shri L. S. Nath

Read :— Shri Lotake Somnath Janardhan

SURESH YADAV  
OSD to the President

No. 100-Pres./2012—The following amendment is made in this Secretariat Notification No. 96-Pres/2011 dated 24th May, 2011 published in Part I Section 1 of the Gazette of India dated the 11th June, 2011 relating to the award of President's Police Medal for Gallantry/Police Medal for Gallantry :—

For :— Shanker Kumar

Read :— Shankar Kumar

SURESH YADAV  
OSD to the President

#### MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi-110115, the 10th September 2012

#### RESOLUTION

No. F. 4-11/2012-U.-3—In terms of the provisions contained in Rule 10 of the Rules and Regulations of the Indian Council of Philosophical Research (ICPR), New Delhi, Prof. Mrinal Miri, former Vice Chancellor, North Eastern Hill University and former Chairman, ICPR is appointed as the Chairman of the Indian Council of Philosophical Research, New Delhi for a period of three years from the date he assumes charge of the post after the expiry of the term of the present Chairman on 18.09.2012.

#### ORDER

Ordered that, the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

Also, ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Member Secretary, Indian Council of Philosophical Research, 36-Tughlakabad Institutional Area, M.B. Road, New Delhi-110062.

K. DAMAYANTHI  
Dir.

#### MINISTRY OF CULTURE

New Delhi-110115, the 7th September 2012

#### RESOLUTION

No. 2-2/2012-ZCC-Government of India.—In exercise of powers conferred by Rules and Regulations of the Zonal Cultural Centres (ZCCs), autonomous organisations registered under the Societies Registration Act, 1860, the Central Government hereby frames the Recruitment Rules for the post of Director, Zonal Cultural Centres as given in the Schedule.

2. These Rules shall be called "Recruitment Rules for the post of Director, Zonal Cultural Centres".

3. These Rules shall come into force with immediate effect.

4. It is ordered that the Notification be published in the Gazette of India for general information.

5. It is also ordered that a copy of the Notification be communicated to all the Ministries and Department of the Government of India and to all the State Governments and Union Territories.

YASH VEER SINGH  
Under Secy.

SCHEDULE  
RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF DIRECTOR, ZONAL CULTURAL CENTRES

Name of the post	No. of Post	Classifications	Scale of Pay	Whether Selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Director	*7(Seven)*	Group 'A' (Non-Ministerial) Non-Gazetted	Rs. 37,400—67,000/- + GP 8,700/-	Not applicable	Not applicable

\*Subject to variation dependant on number of ZCCs.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Upper age limit for applying	Period of probation	Method of recruitment	Criteria for Deputation as well as Short Term Contract
7	8	9	10	11
Not applicable	Deputation : Not exceeding 55 years Short Term Contract: Not exceeding 65 years	Not applicable	Deputation/Short Term Contract	Deputation: Officers who are working in the rank of Deputy Secretary/Director to the Government of India and have experience of working in Organisations related to Art & Culture :  i. Holding post on regular basis in the scale of Rs. 37,400—67,000/- + GP 8,700/-, OR  ii. Having 3 years of regular service in the scale of Rs. 15,600—39,100/- + GP 7,600/-.  Short Term Contract :  1. Eminent cultural personalities (Practicing artistes, scholars or experts) in the field of Art & Culture of at least 10 years standing and experience;  ii. Possessing Bachelor Degree; and  iii. Minimum of 3 years administrative experience in running cultural institution(s).

Search-cum-Selection Committee	Appointing authority	Note
12	13	14
(a) Chairperson of ZCC—Chairperson of the Committee.	The Director shall be appointed by the Executive Board of the respective ZCC with prior approval of Central Government.	i. The Search-cum-Slection Committee will consider the applications received and finalize a panel of 3 eligible candidates and send the same to the Ministry of Culture at least 2 months before the end of the tenure of the Director concerned.
(b) Joint Secretary (ZCC), Government of India, Ministry of Culture—Member		ii. The panel recommended by the Search-cum-Selection Committee will be placed before Minister of Culture for approving one name out of the panel. Decision of the Minister will be conveyed to the Chairman of the ZCC for consideration of the Executive Board.
(c) Two experts/eminant persons in the field of art & culture to be nominated by the Government of India—Members.		iii. In case a cultural personality is selected, his/her appointment as Director, ZCC may be terminated with a prior notice of three months from either side. In respect of Director on deputation, the guidelines of DoP&T regarding deputation will apply.
(d) Culture Secretaries of two Member-states on rotation basis—Members. (This membership will rotate among member-states with every vacancy and in alphabetical order).		iv. The Director appointed on Short Term Contract shall be entitled to pay and allowances as admissible to Directors in the Government of India as may be approved by the Central Government in each case.
		v. The tenure of Director (both on deputation as well as on short term contract) would be for a period of 3 years. The Central Government in consultation with the Chairperson of ZCC may extend the tenure upto 2 years based on the performance. For extension, the performance will be assessed on the basis of the ACRs of the last 3 years as well as significant achievements during this tenure duly recommended by the Chairperson of the ZCC.
		vi. The process of selection will be initiated ten months before the expiry of the term of the sitting Director by the Ministry of Culture by issuing an advertisement advising the aspiring candidates to apply directly to the office of the Chairperson of the concerned ZCC.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित  
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND  
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2012